

**B.Sc. (Third Year)**  
**EXAMINATION, March/April 2022**  
**MATHEMATICS**  
**Paper-III-B**  
**(Discrete Mathematics)**  
*Time : Three Hours*

**Maximum Marks : 40 (For Regular Students)**

**Minimum Pass Marks : 33%**

**Maximum Marks : 50 (For Private Students)**

**Minimum Pass Marks : 33%**

**नोट-** सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है।  
 Attempt *all* questions. Question No. 1 is compulsory.

1. कोई पाँच भाग हल कीजिए :

Attempt any *five* parts :

(i) बूल के विस्तार का प्रमेय लिखिए।

Write Boole's Expansion theorem.

(ii) तुल्यता सम्बन्ध को उदाहरण सहित समझाइए।  
 Explain equivalence relations with example.

P.T.O.


- (iii) उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ अवयव को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।  
 Define Maximal and Minimal Elements with example.
- (iv) माना  $(L, \wedge, \vee)$  एक वितरणीय जालक है किन्तु  $a, b, c \in L$  के लिए  $(a \wedge b = a \wedge c)$  तथा  $(a \vee b = a \vee c) \Rightarrow b = c$   
 Let  $(L, \wedge, \vee)$  is a distributive Lattice then for  $a, b, c \in L$   $(a \wedge b = a \wedge c)$  and  $(a \vee b = a \vee c) \Rightarrow b = c$
- (v) गमन एवं पथ को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।  
 Define walk and Path with example.
- (vi) शीर्ष की घात को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।  
 Define degree of a vertex with example.
- (vii) ट्री (वृक्ष) को परिभाषित कीजिए।  $n$ -शीर्षों सहित एक वृक्ष  $(n - 1)$  कोरें रखता है।  
 Define Tree. A tree with  $n$ -vertices has  $(n - 1)$  edges.
- (viii) जनक वृक्ष को समझाइए।  
 Explain spanning tree.

(ix) आपतन आव्यूह को समझाइए।

Explain Incidence Matrix.

(x) निम्न बहुआलेख G के लिए आसन आव्यूह ज्ञात कीजिए :

Find the adjacency matrix of the following multigraph :



इकाई-I

(Unit-I)

2. निम्नलिखित फलन को उसके वियोजनीय प्रसामान्य रूप में बदलो :

Change the following function into the disjunctive normal form :

$$F(x, y, z) = (x + y) \cdot (x + z') + (y + z')$$

(Or)

यदि किसी समुच्चय X पर परिभाषित, R तथा S, दो तुल्यता संबंध हों तो सिद्ध कीजिए कि  $R \cap S$  भी X पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध है।

If R and S are two equivalence relations defined on a set X, then prove that  $R \cap S$  is also the equivalence relation on X.

इकाई-II

(Unit-II)

3.  $(N, \leq)$  एक जालक है जहाँ N प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है किन्हीं  $a, b \in N$  के लिए दर्शाइए कि :

$$\text{lub}\{a, \text{glb}(a, b)\} = a$$

$$\text{glb}\{a, \text{lub}(a, b)\} = a$$

यहाँ सम्बन्ध " $\leq$ " को "से छोटा या बराबर" से निरूपित किया है।

$(N, \leq)$  is a lattice, where N is a set of natural numbers for all  $a, b \in N$ , show that :

$$\text{lub}\{a, \text{glb}(a, b)\} = a$$

$$\text{and } \text{glb}\{a, \text{lub}(a, b)\} = a$$

here " $\leq$ " represents the relation "Less than or equal to".

P.T.O.

(Or)

माना  $S$ , एक अरिक्त समुच्चय है और  $P(S)$ , समुच्चय  $S$  का घात समुच्चय है (अर्थात्  $P(S)$ ,  $S$  के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है, तब सम्बन्ध अन्तर्विष्ट  $\subseteq$ ,  $P(S)$  पर अंशतः क्रम सम्बन्ध है।

Let  $S$  be a non-empty set and  $P(S)$  is a power set of  $S$ . (i.e.  $P(S)$  is all the subsets of  $S$ ), then the relation inclusion ' $\subseteq$ ' is a partial order relation on  $P(S)$ .

इकाई-III

(Unit-III)

4. दर्शाइए कि  $n$  शीर्षों सहित एक सरल ग्राफ या आलेख में

भुजाओं (कोरों) की महत्तम संख्या  $\frac{n(n-1)}{2}$  होती है।

The maximum number of edges in a simple graph with  $n$  vertices is  $\frac{n(n-1)}{2}$ .

अथवा

(Or)

डाईक्स्ट्रा एल्गोरिथ्म को विस्तार से समझाइए।


Explain in detail Dijkstra's Algorithm.

P.T.O.

( 3 )

L - 13

- (ix) आपतन आव्यूह को समझाइए।  
Explain Incidence Matrix.
- (x) निम्न बहुआलेख  $G$  के लिए आसन आव्यूह ज्ञात कीजिए :  
Find the adjacency matrix of the following multigraph :



इकाई-I

(Unit-I)

2. निम्नलिखित फलन को उसके वियोजनीय प्रसामान्य रूप में बदलो :

Change the following function into the disjunctive normal form :

$$F(x, y, z) = (x + y) \cdot (x + z') + (y + z')$$

P.T.O.

( 7 )


Z - 71

अथवा

(Or)

निम आलेख के लिए आपतन तथा आसन्न आव्यूह ज्ञ  
कीजिए :

Find the incidence and adjancency matrix  
of the following graph :



**Z - 713**